

## राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, छत्तीसगढ़ में NICL (क्रिकेट) लीग फाइनल का आयोजन



राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एन. आई. सी.) मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर के द्वारा प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स मीट NICL (क्रिकेट) का आयोजन, एन. आई. सी. के अधिकारियों एवम निक्सी के प्रोग्रामर्स के बीच खेल भावना को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। जिसमें एनआईसी एवं निक्सी के प्रोग्रामर्स को मिलाकर टीमों का गठन किया जाता है।



NICL की शुरुवात सात वर्ष पूर्व की गयी थी जिसमें सभी टीम आपस में खेलती हैं | इस वर्ष 5 टीमों ने हिस्सा लिया:-

1. RoyalTech
2. TNS TITANS
3. Admin
4. TEN11 Challengers
5. Transport



फाइनल मैच रन रेट के आधार पर शीर्ष की दो टीमों के बीच खेला जाता है | फाइनल मैच का आयोजन दिनांक 12.12. 2021 को TEN11 Challengers एवं TNS TITANS के बीच खेला गया जिसमें TEN11 Challengers विजयी रही | डॉ अशोक कुमार होता, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, फाइनल मैच के दौरान दोनों टीमों से मिले एवं उनका उत्साहवर्धन किया | फाइनल मैच में श्री टी. एन. सिंह, ASIO, श्री पी. रामाराव, ASIO , श्री वाय. वी. एस. राव, वैज्ञानिक - एफ, श्री अशोक कुमार मौर्य, वैज्ञानिक - एफ भी उपस्थित थे |



फाइनल मैच के पश्चात NICL टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण का समारोह किया गया जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का एवं विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफीज एवं मैडल दिए गए जो की इस प्रकार है :-

- Man of the Series :- Shri Vaibhav Sahu  
Emerging Player :- Shri Amit Patel  
Best Fielder :- Shri Gaurav Maurya  
Best Keeper :- Shri Lokesh Tiwari  
Best Senior Player :- Shri P. RamaRao



राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा सभी प्रतिभागियों को बधाई दी एवं इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु समिति को धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दी गयी ।



अंत में कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री ऋषि राय, वैज्ञानिक-बी द्वारा सभी को इस टूर्नामेंट में भाग लेने हेतु धन्यवाद दिया ।



**ADMIN  
TNS TITANS  
ROYAL TECH  
TRANSPORT  
TEN-11 CHALLENGERS**

**NIC का त्योहार**